



## आयुक्त(अपील) का कार्यालय,

Office of the Commissioner (Appeal),

केंद्रीय जीएसटी, अपील आयुक्तालय, अहमदाबाद  
Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad  
जीएसटी भवन, राजस्वमार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५,  
CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015  
☎ 07926305065 - टेलीफैक्स 07926305136



DIN: 20231164SW000000C6D4

### स्पीड पोस्ट

- क फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/STP/2550/2023 / ६६२३-२७
- ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal No. AHM-EXCUS-001-APP-180/2023-24  
दिनांक Date: 29-11-2023 जारी करने की तारीख Date of Issue 30.11.2023  
आयुक्त (अपील) द्वारा पारित  
Passed by Shri Gyan Chand Jain, Commissioner (Appeals)
- ग Arising out of OIO No. 101/WSO8/AC/KSZ/2022-23 दिनांक: 09.12.2022 passed by The Assistant Commissioner, CGST, Division-VIII, Ahmedabad South.
- घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address

**Appellant**  
M/s. Shaikh Ghulamsarwar M Yasin,  
68, Ronak Park, Opp. Sarin Medan,  
Juhapura, Ahmedabad-380001.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

#### Revision application to Government of India:

(i) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को संघ-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(ii) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

(iii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.



- (क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिशेड के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ख) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित हो समय पर या बाद में विले अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हों।

- (c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (i) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाली इ.का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) शिक्तिज आवेदन के साथ जहाँ संलग्न एकम एक लाख रुपये या उससे कम होतो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (i) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण(सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2<sup>nd</sup> माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004
- (a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2<sup>nd</sup> Floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होत हुए भी कि लिखा पड़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्कअधिनियम 1970 यथासंशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रु.6.50 पैसे कान्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- 1<sup>0</sup> सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण(सिस्टेट),के प्रतिअपीलो के मामले में कर्तव्यमांग(Demand) एवं दंड(Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है।(Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded)-

- (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- इस लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- इस सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'संवित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' शामिल करने के लिए पूर्व जमा बना दिया गया है.

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- amount determined under Section 11 D;
- amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष पहले शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो मांग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और वहीं केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute or penalty where penalty alone is in dispute.



**ORDER IN APPEAL**

The present appeal has been filed by M/s. Shaikh Ghulamsarwar M. Yasin, 68, Ronak Park, Opp. Sarin Medan, Juhapura, Ahmedabad (hereinafter referred to as "the Appellants") against Order-in-Original No. 101/WS08/AC/KSZ/2022-23 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by The Assistant Commissioner, Central GST Division-VIII, Ahmedabad South (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. Briefly stated, the facts of the case are that the Appellants were not registered with Service Tax department. They are holding PAN No. BCVPS2942B. As per the information received from the Income Tax department, the Appellants had earned substantial service income from services during F.Y. 2014-15, however they did not obtain service tax registration and did not pay service tax on such income from service. The Appellants were called upon to submit the documents, however, the Appellants failed to submit the required details / documents. Therefore, the Appellant were issued Show Cause Notice bearing No. CGST/DIV-VIII/O&A/TDP/36/BCVPS2942B/2020-21 dated 21.09.2020, wherein it was proposed to:

- a) Demand and recover an amount of Rs. 13,28,989/- under proviso to Sub Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994; along with interest under section 75 of the Finance Act 1994 (hereinafter referred to as 'the Act').
- b) Impose penalty under the provisions of Section 77 (1), 77(2) and 78 of the Act.

3. The SCN was adjudicated ex-parte vide the impugned order wherein:



- a) The demand of service tax amounting to Rs. 13,28,989/- was confirmed along with interest.
- b) Penalty amounting to Rs. 13,28,989/- was imposed under section 78 of the Act.
- c) Penalty amounting to Rs. 10,000/- was imposed under section 77(1) of the Act.
- d) Penalty amounting to Rs. 10,000/- was imposed under section 77(2) of the Act.

4. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the Appellants have preferred the present appeal on 20.03.2023 along with an application for condonation of delay.

5. On going through the appeal memorandum, I find that the impugned order was issued on 09.12.2022 and the same was received by the Appellants on 19.12.2022 and appeal is to be filed within 2 months i.e. on or before 18-02-2023. The Appellants filed appeal on 20.03.2023 in terms of Section 85 of the Finance Act, 1994. In this circumstances there is the delay of 92 days in filing the appeal. The Appellants in their application of condonation of delay inter alia stated that the accountant didn't provide data in time thereby delay in filing of appeal.

6. It is observed that the relevant Section 85 of the Finance Act, 1994, provides that the appeal should be filed within a period of 2 months from the date of receipt of the decision or order passed by the adjudicating authority. Further, under the proviso appended to sub-section (3A) of Section 85 of the Act, the Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay or to allow the filing of an appeal within a further period of one month thereafter, if he is satisfied that the Appellants were prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the period of two



months. Relevant text of Section 85 is reproduced below:

*"SECTION 85. Appeals to the Commissioner of Central Excise (Appeals).—*

*(1) Any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority subordinate to the Principal Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise may appeal to the Commissioner of Central Excise (Appeals).*

*(2) Every appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.*

*(3) An appeal shall be presented within three months from the date of receipt of the decision or order of such adjudicating authority, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter, made before the date on which the Finance Bill, 2012, receives the assent of the President:*

*Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of three months.*

*(3A) An appeal shall be presented within two months from the date of receipt of the decision or order of such adjudicating authority, made on and after the Finance Bill, 2012 receives the assent of the President, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter :*

*Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of two months, allow it to be presented within a further period of one month.\**

6.1 I find that in terms of Section 85, the limitation period of two months for filing the appeal in the present cases starts from 19.12.2022 and the Appellants were required to file the appeal on or before 18.02.2023. However, the appeal was filed on 20.03.2023, i.e. 32 days late from the last date of filing the appeal, which is beyond the period of one month which the Commissioner (Appeals) may condone. Therefore, I reject the said appeal considering Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994, as I have no jurisdiction to condone the delay beyond the condonable period of one month.

7. In view of the above discussion and well settled law, without expressing any opinion on the merits of the case, I reject the appeal filed by the Appellants on the grounds of limitation.



8. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the Appellants stands disposed of in above terms.

29.11.23

ज्ञानचंद जैन  
आयुक्त (अपील)

Dated: 29.11.2023

Attested

अश्विनी कुमार  
अधीक्षक (अपील)  
सी.जी.एस.टी, अहमदाबाद



**BY RPAD/ SPEED POST**

To

M/s. Shaikh Ghulamsarwar M. Yasin  
68, Ronak Park,  
Opp. Sarin Medan, Juhapura,  
Ahmedabad-380001.

Appellants

The Assistant Commissioner  
Division-VIII, CGST & Central Excise  
Ahmedabad South.

Respondent

**Copy to :**

1. The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
2. The Commissioner, CGST, Ahmedabad South
3. The Assistant Commissioner, Division -VIII, Central GST, Ahmedabad South.
4. The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad South (for uploading the OIA)
5. Guard File
6. PA file

